



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 760) पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(सम0)—02—13/2011/1077—श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0—2, झंझारपुर द्वारा कार्यालय परिसर में बाहरी तत्वों के साथ बैठकर मंदिरापान करने, कार्यालय परिसर में आवास रखने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन करने इत्यादि घोर कदाचार के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1400 दिनांक 16.11.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार श्री सिंह के विरुद्ध आरोप प्रपत्र—“क” गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1490 दिनांक 2.12.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध आरोपों को गंभीर कदाचार एवं बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पुनः विस्तृत जाँच कराने/नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 292 दिनांक 4.3.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के नियम 18(1) के तहत मामले की पुनः जाँच प्रारम्भ की गयी, जिसके लिए विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही श्री रण विजय प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता (निलंबित) दिनांक 31.7.13 को सेवानिवृत्त हो गये। तदुपरान्त मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री सिंह को दिनांक 31.7.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रण विजय प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता को दिनांक 31.7.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 760-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>